चण्डमहारोषणतन्त्र धारणी

धर्मरत्न बज्राचाय सुरत श्री महाबिहार II-127

ॐ अचलवी
थागतसंप्रवज्रा
सत्त्वयं: स्थर्
मानयचाजय
समापद्यदंमंत्र

गायनमः ॥ स्थ
स्मि: सर्वमंत्रस
गवान: सर्व: ॥१॥
नाम: समाधिं
समत्त्वयमाह ॥

ॐ चंडमहारोषण हूं फट् ॥ मूलमंत्र ॥ ॥ ॐ अचल हूं
फट् ॥ द्वितीयमूलमंत्र: ॐ हूं फट् ॥ तृतीयमूलमंत्र ॥
॥ ह्रौं ॥ हृदयमंत्र ॥ हां ॥ हृदयमंत्र द्वितीया: ॥ हूं ॥ तृ ॥४॥
तीयाहृदयमंत्र ॥ ॐ क्रों क्रीं क्रीं चण्डरूप चट: प्रच
ट २ कह २ वम हूं च २ प्रम्लापय २ हन २ ग्रस २ बंध

ॐ तय २ स्फुरय २ माहय २ सर्वगारुडां मूखर्वं चन
कूरू २ सर्वज्ञा किनीनां ग्रहहन् पिशाच ब्याधि यक्षा
भ्रंत्रासय २ मन २ मानय २ रूरू चण्ड रूकू : नक्ष २ दव ॥ २ ॥
दह : चण्डमहासन : सर्वमाज्ञापयति ॥ ॐ चण्डमहापाव
कक्रू हूट् ॥ मालामंत्र ॥ नमः सर्वसाप विपूनक लः स

र्वतथागतानां : सर्वथा अयचल काश्च : नद २ माट २ सद
२ नद २ तिष्ठ २ : आविश २ आः महामलवासक : धूहा
२ जिहि २ खाद २ विघ्नान् मार २ दुष्टान : हूंक्षं २ नक्ष २ स
र्वानिंद वदर्हः कूरू २ किनि २ महाविषमवज्र हूट्क्रूं : त्रि
वलितलंगनहः कह २ अवट षट हूट दहाटयहू ॥ अ

समन्तीकरणात् महावज्रसागरसमानयश्रां: मांहीं हूं ह्वातु
लाकुं: तुष्यतु वज्रीं नमास्तु ग्रन्थिहतवज्रस: ह्वाल यत्रात्
असूनमः स्वाहा ॥ ॥द्वितीयामालामंत्र॥ नमः सर्वसाप ॥ ३॥
नियूर्केल: सर्वतथागतस: सर्वथाम्राट्: असमाघयनम
हाशाषस्फोटय हूं: भ्रामय २ हूं फट् स्वाहा ॥ ॥तृतीया

मालामंत्र ॥ॐ नियंत्राचलानां: सामान्यमंत्र ॥ विशेषमंत्राश्च
ॐ कृष्णाचल हूं फट् ॥ॐ श्यामाचल हूं फट् ॥ॐ पीताचल हूं
फट् ॥ॐ रक्ताचल हूं फट् ॥ॐ ध्यमाचल हूं फट् ॥देवीना
नु सामान्यमंत्र ॥ॐ वज्रयोगिनी हूं फट् ॥मूलमंत्र ॥ॐ प्र
ज्ञापारमिता हूं फट् ॥द्वितीयमूलमंत्र ॥ॐ दोहनी हूं

हूट् ॥ तृतीयमूलमंत्र ॥ ॐ पिचु २ प्रज्ञावर्द्धनी ज्वल २ मे
धावर्द्धनी धीरी २ बुद्धिवर्द्धनी स्वाहा ॥ मालामंत्र ॥ वि
ज्ञाबमंत्रांश्च ॐ ह्वृ षवज्री हूं हूट ॥ ॐ मादवज्री हूं हूट् ॥ ४ ॥
ॐ पद्मनवज्री हूं हूट ॐ नागवज्री हूं हूट् ॐ ह्रू ष्याव
ज्री हूं हूट् बलिमंत्र सामान्याय ॐ नमो रत्नवत श्री

धनमहाराजक्षाय देवासुरमनुष्य त्रासनाय सकल
मानव विनाशनकराय ज्वलमकुटकुनभिषस ॐ
संवरि गृह्ण २ मम सर्व विघ्नान् हन २ चतुर्मानिवार
य २ त्रास २ शम २ छिंद २ भिंद २ नाश २ भक्ष २ छेद
२ स्वद २ द्रुव सर्वान् मम विघ्न चिन्त कारक हसिं कुरु

र क्लीं क्लीं क्लः हूट् हूट् हूट् स्वाहा ॥ ॥ इति कपविचारच
श्रीविघ्नमहाशासने तन्त्रमन्त्रपटलः पंचमः समाप्तम् ॥ ॥५॥

II-127 धर्मरत्न बज्राचार्य सुरत श्री महाबिहार